

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 23, शक 1934

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्र. 2259-जि.यो.का./ज.ग./एन.पी.आर./2012.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने, और "राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य" का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है:—

अनुसूची

क्रम संख्या (1)	प्रशासनिक इकाई (2)	पदनाम (3)	नियुक्त किया जाने वाला पदनाम (4)	प्रशासनिक क्षेत्र (5)
1	तहसील सुसनेर	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील सुसनेर.	तहसील सुसनेर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
2	तहसील नलखेड़ा	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील नलखेड़ा.	तहसील नलखेड़ा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
3	तहसील बडौद	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील बडौद.	तहसील बडौद के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	तहसील आगर	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील आगर.	तहसील आगर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
5	तहसील शाजापुर	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील शाजापुर.	तहसील शाजापुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
6	तहसील गुलाना	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील गुलाना.	तहसील गुलाना के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
7	तहसील मो. बडौंदिया	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील मो. बडौंदिया.	तहसील मो. बडौंदिया के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
8	तहसील शुजालपुर	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील शुजालपुर.	तहसील शुजालपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
9	तहसील कालापीपल	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील कालापीपल.	तहसील कालापीपल के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
10	नगरपालिका, आगर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, आगर.	नगरपालिका, आगर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
11	नगरपालिका, शाजापुर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, शाजापुर.	नगरपालिका, शाजापुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
12	नगरपालिका, शुजालपुर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, शुजालपुर.	नगरपालिका, शुजालपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
13	नगर पंचायत, सोंयतकलॉ.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, सोंयतकलॉ.	नगर पंचायत, सोंयतकलॉ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
14	नगर पंचायत, सुसनेर.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, सुसनेर.	नगर पंचायत, सुसनेर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
15	नगर पंचायत, नलखेडा.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, नलखेडा.	नगर पंचायत, नलखेडा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
16	नगर पंचायत, बडागांव.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, बडागांव.	नगर पंचायत, बडागांव के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
17	नगर पंचायत, बडौंद.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, बडौंद.	नगर पंचायत, बडौंद के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
18	नगर पंचायत, कानड.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, कानड.	नगर पंचायत, कानड के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	नगर पंचायत, मक्सी.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, मक्सी.	नगर पंचायत, मक्सी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
20	नगर पंचायत, अकोदिया.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, अकोदिया.	नगर पंचायत, अकोदिया के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
21	नगर पंचायत, पोलायकलॉ.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, पोलायकलॉ.	नगर पंचायत, पोलायकलॉ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
22	संबंधित ग्राम	पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/जनगणना नगर पानखेडी/बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.
23	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/ स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/जनगणना नगर /बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी, 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

स्थान-शाजापुर
दिनांक 23 नवम्बर 2012.

प्रमोद गुप्ता, जिलाध्यक्ष एवं उप सचिव/अति. सचिव
एवं जिला रजिस्ट्रार (एन.पी.आर.).

Shajapur, the 23rd November 2012

क्र. 2259-जि.यो.का.-ज.ग.-एन.पी.आर.-2012.—In exercise of the powers conferred *vide* GAD order No. F-10-1-2012-2-A (3) dated 16th February 2012 published in Madhya Pradesh Gazette dated 17th February 2012 & under rules, 5, 16 & 18 of the Citizenship Act, 1955 and Citizenship (Registration of the Citizens and issue of National Identity Cards) Rules, 2003, the following officers are appointed as the Registers for preparation of National Population Register with NPR designations mentioned in Col. (4) it take or aid in or supervise the NPR operations within the Administrative area specified against each of them in Col. No. (5) of the Schedule:—

SCHEDULE

Sl. No.	Administrative Unit	Designation	To be appointed as	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tahsil Susner	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tahsil Susner.	Entire tahsil Susner (excluding urban areas).
2	Tahsil Nalkheda	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tahsil Nalkheda.	Entire tahsil Nalkheda (excluding urban areas).
3	Tahsil Badod	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tahsil Badod.	Entire tahsil Badod (excluding urban areas).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Tahsil Agar	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tahsil Agar.	Entire tahsil Agar (excluding urban areas).
5	Tahsil Shajapur	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tahsil Shajapur.	Entire tahsil Shajapur (excluding urban areas).
6	Tahsil Gulana	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tahsil Gulana.	Entire tahsil Gulana (excluding urban areas).
7	Tahsil Moman Badodiya.	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tahsil Moman Badodiya.	Entire tahsil Moman Badodiya (excluding urban areas).
8	Tahsil Shujalpur	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tahsil Shujalpur.	Entire tahsil Shujalpur (excluding urban areas).
9	Tahsil Kalapipal	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tahsil Kalapipal.	Entire tahsil Kalapipal (excluding urban areas).
10	Municipality Agar.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Municipality Agar.	Entire urban area of Agar Municipality.
11	Municipality Shajapur.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Municipality Shajapur.	Entire urban area of Shajapur Municipality.
12	Municipality Shujalpur.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Municipality Shujalpur.	Entire urban area of Shujalpur Municipality.
13	Nagar Panchayat Soyatkalan.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Soyatkalan.	Entire urban area of Soyatkalan Nagar Panchayat.
14	Nagar Panchayat Susner.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Susner.	Entire urban area of Susner Nagar Panchayat.
15	Nagar Panchayat Nalkheda.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Nalkheda.	Entire urban area of Nalkheda Nagar Panchayat.
16	Nagar Panchayat Badagoan.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Badagoan.	Entire urban area of Badagoan Nagar Panchayat.
17	Nagar Panchayat Badod.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Badod.	Entire urban area of Badod Nagar Panchayat.
18	Nagar Panchayat Kanad.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Kanad.	Entire urban area of Kanad Nagar Panchayat.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	Nagar Panchayat Maksi.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Maksi.	Entire urban area of Maksi Nagar Panchayat.
20	Nagar Panchayat Akodiya.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Akodiya.	Entire urban area of Akodiya Nagar Panchayat.
21	Nagar Panchayat Polaykalan.	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Polaykalan.	Entire urban area of Polaykalan Nagar Panchayat.
22	Respective Village(s).	Patwari	Local Registrar	Entire area of respective Village/ Census Town Pankhed/Out Growth.
23	Respective Ward(s).	Revenue Inspector/ Health Inspector/ Sanitary Inspector/ Asstt. Revenue Inspector/ Tax Collector.	Local Registrar	Entire urban area in respective wards of Statutory Towns (Municipal Corporations/Municipalities/ Cantonment Board/Nagar Panchayat).

The Sub-District Registrar to appoint Local Registrars at their level as per Govt. order No. F 10-1-2012-2-A(3), dated 16th February 2012.

Place-Shajapur
Date 23rd November 2012

PRAMOD GUPTA, Collector & Dy. Secretary/
Addl. Secretary and District Registrar (NPR).

कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश

मण्डला, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्र. जनगणना-2012-22.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने, और "राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य" का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है:—

अनुसूची

क्रम संख्या (1)	प्रशासनिक इकाई (2)	पदनाम (3)	नियुक्त किया जाने वाला पदनाम (4)	प्रशासनिक क्षेत्र (5)
1	तहसील मण्डला	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील मण्डला.	तहसील मण्डला के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
2	तहसील निवास	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील निवास.	तहसील निवास के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	तहसील बिछिया	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील बिछिया.	तहसील बिछिया के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
4	तहसील नैनपुर	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील नैनपुर.	तहसील नैनपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
5	तहसील नारायणगंज	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील नारायणगंज.	तहसील नारायणगंज के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
6	तहसील घुघरी	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील घुघरी.	तहसील घुघरी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
7	नगरपालिका, मण्डला	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, मण्डला	नगरपालिका, मण्डला के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
8	नगरपालिका, नैनपुर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, नैनपुर.	नगरपालिका, नैनपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
9	नगर पंचायत	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, बम्हनी बंजर.	नगर पंचायत, बम्हनी बंजर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
10	नगर पंचायत	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, बिछिया.	नगर पंचायत, बिछिया के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
11	नगर पंचायत	मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, निवास.	नगर पंचायत, निवास के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
12	संबंधित ग्राम	पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/जनगणना नगर/बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.
13	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/ स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/जनगणना नगर/बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

स्थान-मण्डला

दिनांक 23 नवम्बर 2012

स्वाति मीणा, कलेक्टर एवं जिला रजिस्ट्रार (एन.पी.आर.).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश

मंदसौर, दिनांक 26 नवम्बर 2012

क्र. 2947-जियोसां-जनगणना-2012.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने, और "राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य" का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है:—

अनुसूची

क्र. (1)	प्रशासनिक इकाई (2)	पदनाम (3)	नियुक्त किए जाने वाला पदनाम (4)	प्रशासनिक क्षेत्र (5)
1	तहसील भानपुरा	तहसीलदार, भानपुरा	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील भानपुरा.	तहसील भानपुरा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र गांधी सागर हाईडल कॉलोनी सहित. (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
2	तहसील गरोठ	तहसीलदार, गरोठ	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील गरोठ.	तहसील गरोठ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
3	तहसील शामगढ़	तहसीलदार, शामगढ़	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील शामगढ़.	तहसील शामगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
4	तहसील सुवासरा	तहसीलदार, सुवासरा	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील सुवासरा.	तहसील सुवासरा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
5	तहसील सीतामऊ	तहसीलदार, सीतामऊ	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील सीतामऊ.	तहसील सीतामऊ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
6	तहसील दलौदा	तहसीलदार, दलौदा	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील दलौदा.	तहसील दलौदा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
7	तहसील मंदसौर	तहसीलदार, मंदसौर	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील मंदसौर.	तहसील मंदसौर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
8	तहसील मल्हारगढ़	तहसीलदार, मल्हारगढ़	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील मल्हारगढ़.	तहसील मल्हारगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
9	नगरपालिका, मंदसौर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मंदसौर.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, मंदसौर.	नगरपालिका, मंदसौर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
10	नगर पंचायत, भानपुरा.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, भानपुरा.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, भानपुरा.	नगर पंचायत, भानपुरा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
11	नगर पंचायत, गरोठ.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, गरोठ.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, गरोठ.	नगर पंचायत, गरोठ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	नगर पंचायत, शामगढ़.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, शामगढ़.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, शामगढ़.	नगर पंचायत, शामगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
13	नगर पंचायत, सुवासरा.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सुवासरा.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, सुवासरा.	नगर पंचायत, सुवासरा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
14	नगर पंचायत, सीतामऊ.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सीतामऊ.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, सीतामऊ.	नगर पंचायत के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र सीतामऊ.
15	नगर पंचायत, नगरी.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, नगरी.	नगर पंचायत के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र नगरी.
16	नगर पंचायत, मल्हारगढ़.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मल्हारगढ़.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, मल्हारगढ़.	नगर पंचायत, मल्हारगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
17	नगर पंचायत, पिपलियामण्डी.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, पिपलियामण्डी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, पिपलियामण्डी.	नगर पंचायत के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र पिपलियामण्डी.
18	नगर पंचायत, नारायणगढ़.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नारायणगढ़.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, नारायणगढ़.	नगर पंचायत, के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र नारायणगढ़.
19	संबंधित ग्राम	पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित ग्राम/जनगणना नगर /बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.
20	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/ स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित ग्राम/जनगणना नगर /बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

शशांक मिश्र, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्र. 12784-जनगणना-2012.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत

निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने, और "राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य" का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है:—

अनुसूची

क्रम संख्या (1)	प्रशासनिक इकाई (2)	पदनाम (3)	नियुक्त किया जाने वाला पदनाम (4)	प्रशासनिक क्षेत्र (5)
1	तहसील राजगढ़	तहसीलदार, राजगढ़	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील राजगढ़.	तहसील राजगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
2	तहसील ब्यावरा	तहसीलदार, ब्यावरा	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील ब्यावरा.	तहसील ब्यावरा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
3	तहसील नरसिंहगढ़	तहसीलदार, नरसिंहगढ़	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील नरसिंहगढ़.	तहसील नरसिंहगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
4	तहसील सारंगपुर	तहसीलदार, सारंगपुर	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील सारंगपुर.	तहसील सारंगपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
5	तहसील खिलचीपुर	तहसीलदार, खिलचीपुर	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील खिलचीपुर.	तहसील खिलचीपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
6	तहसील जीरापुर	तहसीलदार, जीरापुर	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील जीरापुर.	तहसील जीरापुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
7	तहसील पचोर	तहसीलदार, पचोर	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील पचोर.	तहसील पचोर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
8	नगरपालिका, ब्यावरा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ब्यावरा.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, ब्यावरा.	नगरपालिका, ब्यावरा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
9	नगरपालिका, नरसिंहगढ़.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नरसिंहगढ़.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, नरसिंहगढ़.	नगरपालिका, नरसिंहगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
10	नगरपालिका, सारंगपुर.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सारंगपुर.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, सारंगपुर.	नगरपालिका, सारंगपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
11	नगरपालिका, राजगढ़.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, राजगढ़.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, राजगढ़.	नगरपालिका, राजगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
12	नगर पंचायत, खिलचीपुर.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, खिलचीपुर.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, खिलचीपुर.	नगर पंचायत, खिलचीपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
13	नगर पंचायत, छापीहेड़ा.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, छापीहेड़ा.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, छापीहेड़ा.	नगर पंचायत, छापीहेड़ा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	नगर पंचायत, जीरापुर.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जीरापुर.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, जीरापुर.	नगर पंचायत, जीरापुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
15	नगर पंचायत, माचलपुर.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, माचलपुर.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, माचलपुर.	नगर पंचायत, माचलपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
16	नगर पंचायत, तलेन.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, तलेन.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, तलेन.	नगर पंचायत, तलेन के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
17	नगर पंचायत, बोड़ा.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बोड़ा.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, बोड़ा.	नगर पंचायत, बोड़ा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
18	नगर पंचायत, सुठालिया.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सुठालिया.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, सुठालिया.	नगर पंचायत, सुठालिया के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
19	नगर पंचायत, खुजनेर.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, खुजनेर.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, खुजनेर.	नगर पंचायत, खुजनेर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
20	नगर पंचायत, पचोर.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, पचोर.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, पचोर.	नगर पंचायत, पचोर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

स्थान-राजगढ़

दिनांक 29 नवम्बर 2012.

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला रजिस्ट्रार (एन.पी.आर.).